





प्रमाण यहाँ है। सारे संसार के स्वामी के साक्षीपत्र का सन्दूक उस समय तुम्हारे आगे चलेगा जब तुम यरदन नदी को पार करोगे।

אָחָד	אִישׁ	אָחָד	אִישׁ	יִשְׂרָאֵל	מִשְׁבְּטֵי	אִישׁ	עֶשְׂרִים	שְׁנַיִם	לְכֶם	קָחוּ	וְעָתָה	12
एक	पुरुष	एक	पुरुष	इसाएल-के	गोत्रों-से	पुरुष	दस	बारह	अपने-लिए	लो	और-अब	
<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H8147</a>		<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H6258</a>	

לְשֵׁבֶט  
गोत्र-के-लिए  
[H7626](#)

अपने बीच से बारह व्यक्तियों को चुनो। इसाएल के बारह परिवार समूहों में से हर एक से एक व्यक्ति चुनो।

הָאָרֶץ	כָּל-	אֲרוֹן	יְהוָה	אֲרוֹן	נְשָׂאֵי	הַכְּהֹנִים	רִגְלֵי	כַּפּוֹת	כַּנּוֹחַ	וְהָיָה	13
पृथ्वी-का	सब	प्रभु	यहोवा-का	संदूक	उठाने-वालों-के	याजकों-के	पैरों-के	तलवों	टिकने-में	और-होगा	
<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0727</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H7272</a>	<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H5117</a>	<a href="#">H1961</a>	

אָחָד:	גֵּר	וַיַּעֲדוּ	מִלְמַעְלָה	הַיַּרְדֵּי	הַמַּיִם	יִכְרְתוּן	הַיַּרְדֵּן	מֵי	הַיַּרְדֵּן	בְּמֵי	
एक	ढेर	और-खड़ा-होगा	ऊपर-से	बहता-हुआ	पानी	कट-जाएगा	यरदन-का	पानी	यरदन-के	पानी-में	
<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H5067</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H4605</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H3383</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3383</a>	<a href="#">H4325</a>	

याजक सारे संसार के स्वामी, यहोवा के सन्दूक को लेकर चलेंगे। वे उस सन्दूक को तुम्हारे सामने यरदन नदी में ले जाएंगे। जब वे पानी में घुसेंगे, तो यरदन के पानी का बहना रुक जायेगा। पानी रुक जाएगा और उस स्थान के पीछे बाँध की तरह खड़ा हो जाएगा।”

הָאָרוֹן	נִשְׂאֵי	וְהַכְּהֹנִים	הַיַּרְדֵּן	אֶת-	לְעָבַר	מֵאֲחֵלֵיהֶם	הָעָם	בַּנֶּסֶע	וַיְהִי	14
संदूक-की	उठाने-वाले	और-याजक	यरदन	की	पार-करने-की	अपने-तंबूओं-से	लोगों-के	चलने-में	और-हुआ	
<a href="#">H0727</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H3383</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0168</a>		<a href="#">H5265</a>	<a href="#">H1961</a>	

הָעָם:  
लोगों-के  
לְפָנָי  
आगे  
הַבְּרִית  
वाचा-का  
[H6440](#) [H1285](#)

याजक लोगों के सामने साक्षीपत्र का सन्दूक लेकर चले और लोगों ने यरदन नदी को पार करने के लिए डेरे को छोड़ दिया।

וַיָּבֹאוּ	וְכָבוֹא	וְנִשְׂבְּלוּ	הָאָרוֹן	נִשְׂאֵי	וְהַכְּהֹנִים	וְרִגְלֵי	הַיַּרְדֵּן	עַד-	הָאָרוֹן	נִשְׂאֵי	15
और-आने-में	और-आने-में	डूबे	संदूक-की	उठाने-वालों-के	याजकों-के	और-पैर	यरदन	तक	संदूक-की	उठाने-वालों-के	
<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H2881</a>	<a href="#">H0727</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H7272</a>	<a href="#">H3383</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H0727</a>	<a href="#">H5375</a>	

בְּקִצָּה	הַמַּיִם	וְהַיַּרְדֵּן	מֵלֵא	עַל-	כָּל-	גְּדוֹתָיו	כָּל	יְמֵי	קִצְיָר:	
किनारे-में	पानी-के	और-यरदन	भरा-था	पर	सब	उसके-किनारों	सब	दिनों	कटाई-के	
<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3383</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1415</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3117</a>				

(फसल पकने के समय यरदन नदी अपने तटों को डुबा देती है। अतः नदी पूरी तरह भरी हुई थी।) सन्दूक ले चलने वाले याजक नदी के किनारे पहुँचे। उन्होंने पानी में पाँव रखा।

וַיַּעֲמֵד	הַמַּיִם	וְהַיַּרְדֵּן	מֵלֵא	עַל-	כָּל-	גְּדוֹתָיו	אָחָד	הַרְחֵק	מֵאֲדָם	וַיַּעֲמֵד	16
और-खड़ा-हुआ	पानी	बहता-हुआ	ऊपर-से	पर	सब	उसके-किनारों	एक	दूर	आदम-से	और-खड़ा-हुआ	
<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H4605</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1415</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H7368</a>	<a href="#">H0121</a>	<a href="#">H5975</a>	

הָעִיר	אֲשֶׁר	מִצָּר	צָרְתָן	וְהַיַּרְדֵּי	עַל	יָם	הָעֲרָבָה	יָם-	הַמִּלְחָ	תָּמּוּ
शहर	जो	तरफ	सारतान-की	और-बहता-हुआ	की-ओर	समुद्र	अराबा-का	समुद्र	लवण-का	समाप्त-हुए
		<a href="#">H6654</a>	<a href="#">H6891</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H6160</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H4417</a>	<a href="#">H8552</a>

יְרִיחוֹ:  
यरीहो-के  
גָּבַר  
सामने  
עָבְרוּ  
पार-किए  
וְהָעָם  
और-लोग  
נִכְרְתוּ  
कट-गए  
[H3405](#) [H5048](#) [H3772](#)

और उस समय पानी का बहना बन्द हो गया। पानी उस स्थान के पीछे बाँध की तरह खड़ा हो गया। नदी के चढ़ाव की ओर लम्बी दूरी तक पानी लगातार आदाम तक (सारतान के समीप एक नगर) उँचा खड़ा होता चला गया। लोगों ने यरीहो के पास नदी को पार किया।

הָבֵן	הַיַּרְדֵּן	בְּתוֹךְ	בְּחַרְבָּה	יְהוָה	בְּרִית־	הָאָרוֹן	נְשָׂאִי	הַכְּהֹנִים	וַיַּעֲמֵדוּ	
दढ़ता-से	यरदन-के	बीच-में	सूखी-जमीन-पर	यहोवा-की	वाचा-की	संदूक-की	उठाने-वाले	याजक	और-खड़े-रहे	
	<a href="#">H3383</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H2724</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H0727</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H5975</a>	
לְעָבֵר	הַיַּרְדֵּן	כָּל־	תְּמוּנָה	אֲשֶׁר־	עַד	בְּחַרְבָּה	עֲבָרִים	יִשְׂרָאֵל	וְכָל־	
पार-करने-को	जाति	सारी	समाप्त-हो-गई	कि	जब-तक	सूखी-जमीन-पर	पार-करते-थे	इसाएल	और-सब	
		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8552</a>		<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H2724</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3605</a>	
								הַיַּרְדֵּן:	אֶת־	
								यरदन	को	
								<a href="#">H3383</a>	<a href="#">H0853</a>	

उस जगह की धरती सूख गई याजक यहोवा के साक्षीपत्र के सन्दूक को नदी के बीच ले जाकर रूक गये। जब इस्राएल के लोग यरदन नदी को सूखी धरती से होते हुए चल कर पार कर रहे थे, तब याजक वहाँ उनकी प्रतीक्षा में थे।